

WORLD EARTH DAY 2022

प्रेस विज्ञप्ति



स्थानीय एस. एन. सिन्हा कॉलेज, जहानाबाद में विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर सृजनात्मक सोच आधारित कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य प्रो. (डॉ.) उमाशंकर सिंह के कर कमलों से हुआ, जिसमें वेबसाइट का ऑनलाइन उद्घाटन भी हुआ। कंप्यूटर एप्लिकेशन विभाग द्वारा आयोजित कराये जा रहे इस कार्यक्रम में प्राचार्य सहित अन्य शिक्षकों को उपहार स्वरूप एक-एक पौधा प्रदान किया गया एवं कॉलेज प्रांगण में वृक्षारोपण भी किया गया।

प्राचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि पृथ्वी एक मात्र ग्रह है जिसपर जीवन है और इसको संरक्षित रखना तथा सभी प्रकार जैविक एवं अजैविक संतुलन कायम रखना अति आवश्यक है। साथ ही सकारात्मक सोच के साथ दृढ़ संकल्पित होकर अपने व्यवहार में परिवर्तन एवं अन्य लोगों में जागरूकता फैलाये जाने की जरूरत है। इस प्रकार वर्तमान पीढ़ी अपनी जरूरत को पूरा करते हुए भावी पीढ़ी को सुरक्षित पर्यावरण दे पाएगा जिसमें सतत विकास एवं पृथ्वी के सभी जीव-जंतुओं के लिए अनुकूल वातावरण भी समाहित है।

कम्प्यूटर एप्लिकेशन विभाग के कोऑर्डिनेटर डॉ. शशिधर गुप्ता ने सभी सहभागियों का स्वागत करते हुए विश्व पृथ्वी दिवस के इतिहास, वर्तमान समय में प्रासंगिकता एवं समस्त मानवजाति द्वारा पृथ्वी को संरक्षित किये जाने का प्रयास एवं जागरूकता पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में पंकज कुमार सहित अन्य शिक्षकों ने बच्चों के मार्गदर्शन में महती भूमिका निभाई। वहीं राजीव कुमार सिंह एवं गौरव सिन्हा ने तकनीकी सहयोग दिया।

पृथ्वी दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में पृथ्वी एवं तकनीक से संबंधित उद्देश्य पर तीन प्रतियोगिता कार्यक्रम 'पोस्टर मेकिंग' 'शार्ट मूवी मेकिंग' एवं 'इनोवेटिव आइडिया एंड सॉल्यूशन' में छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। पृथ्वी एवं

तकनीक से संबंधित कार्यक्रम में विभिन्न दृष्टिकोण से पृथ्वी संरक्षण के प्रयासों पर अमल करने एवं जन जागरूकता फैलाने में मदद मिलेगी। छात्रों के आंतरिक प्रतिभा को पल्ववित करने का एक अवसर प्राप्त हुआ साथ ही बेहतर करने हेतु शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों में दिव्यांशु आनंद ने प्रथम, निधि कुमारी ने द्वितीय एवं पंकज कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इनोवेटिव आइडिया एंड शॉल्यूशन प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों में सुप्रिया कुमारी ने प्रथम, आशीष भारती ने द्वितीय तथा पुष्पांजलि कुमारी एवं पल्लवी पाठक ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया। शार्ट मूवी मेकिंग प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों में मनीष कुमार, प्रिंस कुमार एवं बलजीत कुमार ने संयुक्त रूप से प्रथम, आशीष भारती ने द्वितीय तथा हेमंत कुमार एवं दिव्यांशु आनंद ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया।

जज पैनल के रूप में शार्ट मुवी प्रतियोगिता में डॉ. शालिनी, मो. इन्तखाब आलम एवं जनमेजय कुमार, पेंटिंग प्रतियोगिता में डॉ. एन. पी. सिंह, डॉ. बबलु एवं कुमार विजय तथा इनोवेटिव आइडिया एंड शॉल्यूशन में डॉ. शशिधर गुप्ता, ओम प्रकाश वर्मा एवं अर्चना कुमारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाविद्यालय द्वारा आयोजित इस प्रकार के कार्यक्रमों से छात्रों की प्रतिभा को निखारने का मौका एवं प्रेरणा मिलती है तथा नवाचार एवं तकनीकी ज्ञान के प्रयोग का भी अवसर मिलता है। कार्यक्रम की सफलता के लिए डॉ. सुबोध कुमार झा, डॉ. गिरिराज शर्मा, डॉ. अख्तर रोमानी एवं डॉ. सिम्मी ने अपनी शुभकानाएँ प्रेषित की

इस अवसर पर डॉ. अनिल कुमार सिंह, डॉ. राजकुमार मिश्र, डॉ. नूतन, प्रमिला कुमारी, अर्चना कुमारी, राजेश कुमार सहित सुनील, ब्रजेश कुमार, संजय कुमार, मो. शमीम, सुनील कुमार, ज्ञान रंजन, रंजय एवं छात्रों में अभिषेक कुमार, दीपू कुमार, शिवम कुमार, ऋषि कुमार, शुभम् कुमार एवं प्रशांत कुमार सम्मिलित हुए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को कॉलेज के विभागीय WEBSITE

<https://sites.google.com/view/wordearthday2022/home>

पर देखा जा सकता है।